



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 वैशाख 1939 (श0)
(सं0 पटना 375) पटना, सोमवार, 8 मई 2017

परिवहन विभाग

अधिसूचना

1 मई 2017

सं0 6/सी.एम.टी./24/2012-2410—सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं0-सा.का.नि. 423(अ), दिनांक 01.05.2017, के द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 में,-

(क) उपनियम (1) के परन्तुक में,-

(i) खण्ड(ii) में ,'' वायुपत्तनों, पत्तनों'' शब्दों के स्थान पर, ''वायुपत्तनों,पत्तनों, खानों और परियोजना स्थलों'' शब्द रखे गए हैं।

(ii) खण्ड (iii) का लोप किया गया है।

(iii) खण्ड (v) का लोप किया गया है।

(ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) का लोप किया गया है।

(ग) उपनियम (4) में, ''आपात ड्यूटी के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा और विनिर्दिष्ट रूप से राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी आपात ड्यूटी और आपदा प्रबंधन ड्यूटी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा'' शब्द रखे गए हैं।

(घ) उपनियम (5) और उपनियम (6) का लोप किया गया है।

अतः केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2017 के अधिसूचित होने के फलस्वरूप वाहनों के शीर्ष अग्रभाग पर लाल बत्ती (फ्लैशर सहित/फ्लैशर रहित), नीली बत्ती (फ्लैशर सहित/फ्लैशर रहित), के प्रयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना सं०-1374, दिनांक 04.03.2014, अधिसूचना 3450 दिनांक 18.06.2014 को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 375-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>